



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, जून 29—जुलाई 5, 2008, शनिवार/आषाढ़ 8—आषाढ़ 14, 1930
No. 20] NEW DELHI, JUNE 29—JULY 5, 2008, SATURDAY/ASADHA 8—ASADHA 14, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2008

आ. अ. 56.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के लिए हुए उप निर्वाचन, 2007 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है:-

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता के कारण
1	2	3	4	5
1.	छत्तीसगढ़ से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2007	38-मालखरौदा (अ.जा.)	श्री खिलावन प्रसाद, मु. व पो. बंदोरा व्हाया अडभार, तह. मालखरौदा जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	श्री हीराराम, ग्राम-पिकरीपार, पो. सोनादुला, तह. मालखरौदा जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़।	-वही-
3.	-वही-	-वही-	श्री प्रेम लाल, ग्राम-बडे पडरमुडा, पो.-पोता, तह.-मालखरौदा जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़।	-वही-

[सं. 76/छ.ग.-वि.स./2007 (उप)]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 9th June, 2008

O. N. 56 .—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the Bye Election to the Chhattisgarh Legislative Assembly, 2007 as specified in column (2), held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission, is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure.

Now, therefore, in pursuance of Section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :

TABLE

Sl. No.	Particulars of Election	Sl. Number & Name of Assembly Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2007	38-Malkharoda	Sh. Hiraram, Vill-Pikaripar, PO-Sonadula, Tahsil-Malkharoda, Distt-Janjgir-Champa, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of election expenses.

1	2	3	4	5
2.	Bye Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2007	38-Malkharoda (SC)	Sh. Khilawan Parasad, Vill. P.O. -Bandora Via Adbhar Tahsil-Malkharoda, Distt-Jangir-Champa, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of election expenses.
3.	-do-	-do-	Sh. Prem Lal, Village-Bade Padarmuda, Post Pota, Tahsil Malkharoda, Distt-Janjgir-Champa Chattisgarh	-do-

[No.76/CG-LA/2007(Bye)]

By Order,

R. K. SRIVASTAVA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2008

आ. अ. 57.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य से विधान सभा के लिए हुए उप निर्वाचन, 2006-07 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्दीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:-

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हिता के कारण
1	2	3	4	5
1.	मध्य प्रदेश से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2007	47-मलेहरा	श्री महेश कुमार शिवहरे, निवासी-रंगौली, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	-वही-	-वही-	श्री गोकल, ग्राम-पट्टी रामपाल सिंह, (मडकोबा) पो. दमोह, थाना-कुडीला, तहसील-बल्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।	-वही-

1	2	3	4	5
3.	मध्य प्रदेश से विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2007	26-शिवपुरी	श्री कैलाश सिंह रावत, ग्राम-सेमरखेडी, पोस्ट-ककरौआ, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश ।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे ।
4.	-वही-	26-शिवपुरी	श्री बृजेश शर्मा, फतेहपुर टोंगरा रोड, वर्मा कॉलोनी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश ।	-वही-
5.	-वही-	26-शिवपुरी	श्री एम.के. शर्मा, ग्राम-बूढदा, तहसील-पोहरी, शिवपुरी, मध्य प्रदेश ।	-वही-

[सं. 76/म.प्र.-वि.स./2006-07(उप)]

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

ORDER

New Delhi, the 9th June, 2008

O. N. 57.—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the table below, at the Bye Elections to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2006-2007 as specified in column (2), held from the constituency specified in column (3) against his name, has failed to lodge account of his election expenses as required by the Representations of the People Act, 1951 and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission, is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure.

Now, therefore, in pursuance of Section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :

TABLE

Sl. No.	Particular of Election	Sl. Number & Name of Assembly Constituency	Name & Address of contesting Candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	Bye Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2007	47-Malehra	Sh. Mahesh Kumar Shivhare, Vill. Ragoli, Distt. Chhatarpur Madhya Pradesh	Failure to lodge any account of election expenses.
2.	-do-	47-Malehra	Sh. Gokal, Vill. Patti Ram Pal Singh (Madkoba), Post-Damoh, Thana-Kudila Tehsil-Baldevgarh, Distt-Tikamgarh Madhya Pradesh	-do-

1	2	3	4	5
3.	Bye Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly, 2007	26-Shivpuri	Sh. Kailash Singh Rawat, Village-Semarkedi, Post-Kakraua, Tehsil Pohri, Shivpuri, Madhya Pradesh	Failure to lodge any account of election expenses.
4.	-do-	-do-	Sh. Brajesh Sharma Fatehpur Tongura Road, Varma Colony, Shivpuri, Madhya Pradesh	-do-
5.	-do-	-do-	Sh. M.K. Sharma (Burdha) Village Burdha Tehsil Pohri Shivpuri Madhya Pradesh	-do-

[No. 76/MP-LA/2006-07(Bye)]

By Order,
R. K. SRIVASTAVA, Secy.

नई दिल्ली, 27 जून, 2008

आ.अ. 58.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग मणिपुर सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री शम्भु सिंह, आई.ए.एस. (एम.टी.-1986) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए मणिपुर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है। उन्हें निर्वाचनों के संबंध में राज्य सचिवालय के उस विभाग में सरकार के सचिव के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

2. श्री शम्भु सिंह, मणिपुर सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री शम्भु सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मणिपुर के रूप में कार्य करते हुए मणिपुर सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/एम आर/2008-का. प्रशासन]

आदेश से,
एस. आर. कार, अवर सचिव

New Delhi, the 27th June, 2008

O. N. 58.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Manipur hereby nominates Shri Shambhu Singh, IAS (MT-1986) as the Chief Electoral Officer for the State of Manipur with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri R.R. Rashmi, IAS. He will also be designated as Secretary to the Government in the Department in the State Secretariat dealing with elections.

2. Shri Shambhu Singh shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Manipur, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Shambhu Singh while functioning as the Chief Electoral Officer, Manipur shall not hold any additional charges whatsoever under the Government of Manipur except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/MR/2008-P. Admn.]

By Order,
S. R. KAR, Under Secy.

3340 GI/08-2

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2008

आ.अ. 59.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन के परामर्श से एतद्द्वारा श्री धर्म पाल, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री संजीव खिरवार, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू.टी.-1994) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी भादशों तक के लिए अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री खिरवार अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री खिरवार, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि उनको इस संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, के साथ में अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/एएनआई/2008-का. प्रशासन]

आदेश से,

एस. आर. कार, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2008

O. N. 59.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Administration of Andaman & Nicobar Islands hereby nominates Shri Sanjeev Khirwar, IAS (AGMUT:1994) as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri Dharam Pal, IAS.

2. Shri Khirwar shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Administration of Andaman & Nicobar Islands, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Khirwar while functioning as the Chief Electoral Officer, Andaman & Nicobar Islands shall not hold any additional charges whatsoever under the Administration of Andaman & Nicobar Islands except that he should be designated Secretary to the Administration of Andaman & Nicobar Islands in charge of Election Department in the Union Territory Secretariat.

[No. 154/ANI/2008-P. Admn.]

By Order,

S. R. KAR, Under Secy.